

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

### मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 2015, (कार्तिक 15, 1937)

क्र. 24425-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 नवम्बर, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भोपाल में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल:

दिनांक 06 नवम्बर, 2015

राम नरेश यादव

राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.